



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2423]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2010/अग्रहायण 8, 1932

No. 2423]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2010/AGRAHAYANA 8, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

का.आ. 2857(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3295(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बेलगाम और उत्तर कन्नड जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4ए के 0.000 कि.मी. से 84.400 कि.मी. (कर्नाटक/गोवा सीमा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 20 फरवरी, 2010 को "विजय कर्नाटक" कन्नड़ दैनिक और "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" अंग्रेजी दैनिक, दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4ए के 0.000 कि.मी. से 84.400 कि.मी. तक (बेलगाम - गोवा/कर्नाटक बॉर्डर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. उत्तर कन्नड़	1. सूपा (जोयडा)	1) देवाली (टी)	4	सरकारी और निजी	शुष्क	135267	1) रिजर्वड फॉरेस्ट 2) वासु नारायण सावन्त 3) शान्ता को. विष्णु कोरे 4) धानु देवप्पा गवाडा 5) अप्पु गणेश गवाडा 6) तुकाराम दयानोबा हनाबार और अन्य
				4ए1ए1 ए1ए1ए1 ए1ए1ए 4ए1ए1बी1बी				
				130ए	सरकारी और निजी	सिंचित	91040	1) रिजर्वड फॉरेस्ट 2) बालु बाबी गाओंकर
				130जी	निजी	सिंचित	867	1) नारायण लक्ष्मण 2) कालु लक्ष्मण 3) शरद मोहन केश कामत
				130बीएच	सरकारी और निजी	शुष्क	874	1) बालचन्द्र कृष्णा देसाई 2) शंकर धनाभा देसाई 3) प्रेमा शिवाजी इवोलकर 4) मालप्रभा तुकाराम देसाई 5) सुमति विट्ठल देसाई 6) सुलोचना दत्ता देसाई 7) यमुनाबाई कृष्णा देसाई 8) कुसुमा जयराम केसरेकर 9) संतोष धनाभा देसाई 10) मारुति दुलाबा देसाई 11) तुकाराम बबानी हनाबार 12) चन्नप्पा बबानी हनाबार 13) रिजर्वड फॉरेस्ट
				142	निजी	सिंचित	4805	1) यदु देवप्पा गवाडा 2) देवकी कोम गोविन्द हनाबार 3) नारायण बबाली गवाडा 4) कृष्णा बबाली गवाडा 5) पाण्डुरंग ओमन्ना गवाडा 6) शंकर ओमन्ना गवाडा 7) रमेश ओमन्ना गवाडा 8) सुरेश नरहरि रेडकर 9) रेडकर ब्रदर्स और कंपनी
			2) अनमोड	57	सरकारी	शुष्क	129523	1) फॉरेस्ट
				85	निजी	सिंचित	1428	1) महादेव नारु गवाडा 2) शाम्बा नारु गवाडा 3) गोविन्द नारु गवाडा
				84	निजी	सिंचित	480	1) विलाश चन्द्र नायक
				86	निजी	सिंचित	5040	1) पार्वती शंकर गायकवाड़ 2) बाबली वासु गाओंकर 3) मनोज वासु गाओंकर एमजी पार्वती 4) महादेव नारु गवाडा 5) शम्भा नारु गवाडा

				6) गोविन्द नारु गवाडा 7) विलाशीन को. वासुदेव गोटगे गोंवटाना
गोंव	निजी		3780	
45	सरकारी	शुष्क	1152	1) फॉरेस्ट
44	निजी	सिंचित	1014	1) होन्दु गोविन्द गाओंकर 2) अंकुश अर्जुन 3) यशवन्त अर्जुन
47	निजी	सिंचित	2358	1) सावन्त प्रसाद गोपाल 2) रुकमिणी विठोबा मलिक 3) लाडु को. शिवाजी मिसले 4) नागुली को. शिवाजी हिपटारकर 5) अनन्त विठोबा मलिक 6) नामदेव लक्ष्मण गवाडा 7) एक्जिक्युटिव इंजिनियर (ई), ट्रांसमिशन लाईन, सब सेंटर, डिविजन सिरसी 8) नामदेव येशो परसेकर 9) लक्ष्मीकान्त गोपाल सावन्त 10) सैयद बाबुसाएब सैयद खाजी हुसैन
46	सरकारी	शुष्क	3060	1) फॉरेस्ट
49	निजी	सिंचित	600	1) सैयद बाबुसाएब 2) सैयद खाजी हुसैन
53	निजी	सिंचित	5830	1) सरकारी वेस्ट 2) सुब्रे गुरुदास हेगडे 3) एक्साइज डिपार्टमेंट 4) प्रदीप किरणकुमार सावन्त 5) लिलावती सुरेन्द्र को. शेदटी 6) सीताबाई को. रामचन्द्र 7) महादेव रामचन्द्र 8) श्रीनिवास रामचन्द्र 9) प्रभाकर रामचन्द्र 10) सुरेश रामचन्द्र 11) किशोर रामचन्द्र 12) सुभाष रामचन्द्र 13) विलाशिनी रामचन्द्र 14) एल.के. सन्तुकर, पार्टनर श्रीराम मायाशिग कम्पनी 15) सुशान्त नारायण नूली 16) सदानन्द शंकर पाई 17) सावित्री को. बाबु मिरासी 18) डायरेक्टर ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट बीएनजी 19) कार्ड स्टैंड
54	निजी	सिंचित	192	1) गोपिका गोपाल सावन्त 2) जिन्याश्वर गोपाल सावन्त 3) हनमन्त गोपाल सावन्त 4) लक्ष्मीकान्त गोपाल सावन्त 5) प्रसाद गोपाल सावन्त 6) सैयद काशीमराजेसाएब सैयद
87ए1बी	निजी	सिंचित	5300	1) शशिकान्त दामोदर कोलटकर 2) सुधा शशिकान्त कोलटकर 3) सन्दर्शन शशिकान्त कोलटकर

								4) समीर शशिकान्त कोलटकर 5) श्रीरन्जिनी शशिकान्त कोलटकर 6) गवाडा धानु तुलु
			87ए1ए	सरकारी और निजी	सिंचित	85442		1) फॉरेस्ट और अन्य
			61	निजी	सिंचित	560		1) के.एम.पोटदार और सन्स 2) गाओंकर रघोबा सोमिनाथ 3) गनाबा गणेश
		3) अटले	2	सरकारी	शुष्क	113330		1) फॉरेस्ट
कुल योग:							591942	

[फा. सं. भाराप्र/एलए-2009/नोट./3(डी)/केआरटी/बीएनजी]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2010

S.O. 2857(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3295(E), dated the 24th December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 4A on the stretch of land from km 0.000 to km. 84.400 (Karnataka/Goa Boundary Section) in Districts Belgaum and Uttar Kannada in the State of Karnataka;

And, whereas the substance of the said notification has been published in "Vijay Karnataka" Kannada Daily and "The Times of India" English Daily, both dated the 20th February, 2010; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And, whereas, objection has been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule herein below should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule herein below shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.0.000 to Km.84.400 (Belgaum - Goa/KNT Border Section) on the National Highway No. 4A in the State of Karnataka

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Square and	Name of Persons Interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uttar Kannada	1. Supa (Joida)	(1) Devalli (T)	4	Govt. & Pvt.	Dry	135267	1) Reserved Forest
				4A1A1 A1A1A1 A1A1A				2) Vasu Narayan Savant 3) Shanta Ko. Vishnu Kore 4) Dhanu Devappa Gavada 5) Appau Ganesh Gavada 6) Tukaram Dyanoba Hanabar and others
				4A1A1B1B				
				130A				1) Reserved Forest 2) Balu Babi Gaonkar
				130G				1) Narayan Laxman 2) Kalu Laxman 3) Sharad Mohan Kesh Kamat
				130BH				1) Balachandra Krishna Desai 2) Shankar Dhanabha Desai 3) Prema Shivaji Ivolkar 4) Malaprabha Tukaram Desai 5) Sumati Vithal Desai 6) Sulochana Datta Desai 7) Yamunabai Krishna Desai 8) Kusama Jayaram Kesarekar 9) Santosh Dhanaba Desai 10) Maruti Dulaba desai 11) Tukaram Babani Hanabar 12) Channappa Babani Hanabr 13) Reserved Forest
				142				1) Yadu Devappa Gavada 2) Devaki Kom Govind Hanabar 3) Narayan Babali Gavada 4) Krishna Babali Gavada 5) Pandurang Omannu Gavada 6) Shankar Omannu Gavada 7) Ramesh Omannu Gavada 8) Suresh Narahari Redkar 9) Redkar Brothers & Co.
			2) Anmod	57	Govt	Dry	129523	1) Forest
				85	Pvt	Wet	1428	1) Mahadev Naru Gavada 2) Shamba Naru Gavada 3) Govind Naru Gavada
				84	Pvt	Wet	480	1) Vilash Chandru Naik
				86	Pvt	Wet	5040	1) Parvati Shankar Gayakvad 2) Babali Vasu Gaonkar 3) Manoj Vasu Gaonkar M/G Parvati 4) Mahadev Naru Gavada 5) Shabha Naru Gavada

H521 92/10-2

					6) Govind Naru Gavada 7) Vilashin Ko. Vasudev Gotage
	Village	Pvt	NA	3780	Gaontana
	45	Govt	Dry	1152	1) Forest
	44	Pvt	Wet	1014	1) Hondu Govind Gaonkar 2) Ankush Arjun 3) Yashavant Arjun
	47	Pvt	Wet	2358	1) Savant Prasad Gopal 2) Rukmini Vithoba Malik 3) Ladu Ko. Shivaji Misale 4) Naguli Ko. Shivaji Hiptarkar 5) Anant Vithoba Malik 6) Namdev Laxman Gavada 7) Executive Engineer (E), Transmission Line, Sub Center. Division Sirasi 8) Namdev Yeshe Parasekar 9) Laxmikant Gopal Savant 10) Sayyad Babusaib Sayyad Khaji Husen
	46	Govt	Dry	3060	1) Forest
	49	Pvt	Wet	600	1) Sayyad Babusaib 2) Sayyad Khaji Husen
	53	Pvt	Wet	5830	1) Government Waste 2) Subray Gurudas Hegade 3) Excise Dept 4) Pradeep Kirankumar Savant 5) Lilavati Surendra Ko. Shetti 6) Sitabai Ko. Ramchandra 7) Mahadev Ramachandra 8) Srinivas Ramchandra 9) Prabakar Ramchandra 10) Suresh Ramchandra 11) Kishore Ramchandra 12) Subhas Ramchandra 13) Vilashini Ramchandra 14) L.K Santukar, Partner Sriram Mayashing Co. 15) Sushant Narayan Nuli 16) Sadanand Shankar pai 17) Savitri Ko. Babu Mirasi 18) Director Turisom Dept Bng 19) Cartstand
	54	Pvt	Wet	192	1) Gopika Gopal savant 2) Jynyashwar Gopal savant 3) Hanamant Gopal savant 4) Laxmikant Gopal Savant 5) Prasad Gopal Savant 6) Sayyad Kashimrajesaib Sayyad
	87A1B	Pvt	Wet	5300	1) Shashikant Damodar Koltkar 2) Sudha Shashikant Koltkar 3) Sandrashan Shashikant Koltkar 4) Sameer Shashikant Koltkar 5) Sriranjini Shashikant Kolatkar 6) Gavada Dhanu Tulu

				87A1A	Pvt. & Govt.	Wet	85442	1) Forest & others
				61	Pvt	Wet	560	1) K.M Potadar & Sons 2) Gaonkar Raghoba Sominath 3) Ganaba Ganesh
			(3) Atle	2	Govt	Dry	113330	1) Forest
G. Total:							591942	

[F. No. NHAI/LA-2009/Noti./3(D)/KRT/BNG]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.